

मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA


१०३ ०१ २०१२ (
५ ५२ १०३)

विदेह

१

२

२ १

२०१२)

[

२०१२)[

२०१३) [

२०१२-१३ :

१

१


१४-१७

२

०६ ११९७

२० ११९७

3

१२-१३ २०११ १९-२० २०११

१७-१६ २०११ २२-२३ २०११

२९-३० २०११ ०७-०६ २०११

०१-०२ २०११ ०८-०९ २०११

०३-०४ २०११ १०-११
२०११

२०-२१
२०११ २७-२८ २०११

०६-०७
२०११ १३-१४ २०११

०६-०७
२००८ १३-१४ २००८ ०५-०६
२००९ १२-१३ २००९ ०४-०५
२०१० ११-१२ २०१० १७-१८
२०११ २४-२५ २०११

ऑ

ऑ

७० ऑ

७००

१०००-१०००)

२८-२९ २०१२

१७-१८ २०११ २४-२५ २०११

२६-२७ २०११ ०३ ०४ २०११

१२-१३ २०११ १९-२० २०११

१७-१६

२०११ २२-२३ २०११

२९-३० २०११

०७-०६ २०११

०१-०२ २०११ ०८-०९

२०११

०३-०४ २०११ १०-११

२०११

२०-२१ २०११ २७-२८

२०११

०६-०७

२०११ १३-१४ २०११

०६-०७

२००८ १३-१४ २००८ ०७-०६

२००९ १२-१३ २००९ ०४-०५

२०१० ११-१२ २०१० १७-१८

२०११ २४-२५ २०११

०३ २०१२-०४-०८

४

१३ ११९७)

ऑ

ISSN 2229-547X VIDEHA

७७

७६

७-७-१९४७

११३९-४०)

११४२


......

....


....

....


१९७०





११३४)




२.

२.१.

२.२. १. २.

२.३.१. २. ३.





मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA

२००८

२००९

२

२०१२

१९८१

१

१

२

मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA

३

१

१

२

२

3

५

२


१

१

२

१

_

…

⠅⠝⠔ ⠶⠅⠃⠔ ⠓⠑ ⠍⠜⠊

⠏⠜⠄⠉⠑ ⠅⠕⠔ ⠏⠫⠇ ⠙⠢⠓⠜⠊

⠅⠕⠝ ⠖⠳⠇ ⠍⠜⠄ ⠍⠝⠈⠙⠢⠇⠃⠜

⠅⠕⠝ ⠖⠳⠇ ⠃⠝⠈⠙⠔ ⠍⠝⠈⠙⠢⠇⠃⠜

⠅⠕⠝ ⠖⠳⠇ ⠏⠗ ⠏⠫⠇ ⠙⠢⠓⠜⠊

⠅⠝⠔ ⠶⠅⠃⠔ ⠓⠑ ⠍⠜⠊

⠅⠕⠝ ⠖⠳⠇ ⠏⠗ ⠏⠫⠇ ⠙⠢⠓⠜⠊

⠅⠝⠔ ⠶⠅⠃⠔ ⠓⠑ ⠍⠜⠊

⠠⠇⠔ ⠖⠳⠇ ⠍⠜⠄ ⠍⠝⠈⠙⠢⠇⠃⠜

⠃⠑⠇⠔ ⠖⠳⠇ ⠇⠤⠅⠑⠬⠗⠔ ⠍⠝⠈⠙⠢⠇⠃⠜

⠛⠑⠝⠈⠙⠑ ⠖⠳⠇ ⠏⠫⠇ ⠙⠢⠓⠜⠊


⠅⠝⠔ ⠶⠅⠃⠔ ⠓⠑ ⠍⠜⠊

⠛⠑⠝⠈⠙⠑ ⠖⠳⠇ ⠏⠫⠇ ⠙⠢⠓⠜⠊

⠅⠝⠔ ⠶⠅⠃⠔ ⠓⠑ ⠍⠜⠊

⠙⠙⠙⠙⠙⠙⠙⠙⠙





२

१

२

३१

3

४

५

...

६

१

२

७६


३

१

२१

२००७


२५ २०१२



मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA

२


७६

3





२









⠗⠜⠞⠊ ⠍⠜⠝⠑ ⠅⠜⠗⠔ ⠏⠓⠗

⠛⠞⠈⠗ ⠛⠞⠈⠗ ⠩⠜⠆⠞

⠚⠔⠧ ⠈⠚⠔⠧ ⠜⠅⠈⠗⠜⠆⠞

⠗⠚⠝⠔⠅ ⠇⠔⠇⠜⠬⠄

⠟⠼⠊⠅ ⠃⠉⠃⠜⠅ ⠇⠑⠇

⠇⠕⠅ ⠚⠗⠃⠌⠡ ⠙⠔⠏

⠬⠘⠈⠽⠞⠜⠅ ⠧⠊⠅⠜⠬⠅ ⠬⠰⠛ ⠬⠰⠛

⠍⠝⠥⠅⠈⠨ ⠉⠑⠞⠝⠩⠔⠇ ⠓⠕⠊⠞ ⠛⠑⠇

⠏⠓⠊⠝⠑ ⠊⠚⠕⠞⠅ ⠇⠑⠇⠲⠲⠲

⠨⠗ ⠏⠥⠜⠗ ⠚⠜⠗⠝⠊

⠇⠞⠈⠞⠜ ⠝⠳⠜ ⠖⠾⠈⠾⠜

⠬⠳⠞ ⠡⠕⠻⠊ ⠗⠳⠊⠽⠜⠅ ⠘⠜⠞⠔

⠿⠊⠃⠻⠔⠅ ⠃⠙⠇⠜ ⠇⠑⠍⠈⠏

⠃⠓⠅⠌⠞ ⠗⠕⠩⠝⠔⠍⠑ ⠛⠃⠌⠞ ⠏⠗⠜⠞⠔

⠃⠥⠊⠮⠅ ⠧⠊⠅⠜⠬ ⠘⠑⠇⠲⠲⠲

⠧⠊⠙⠈⠽⠥⠞ ⠞⠗⠆⠛⠍⠑

२

3

१

२

३

१ २

३ ४

१

१

२

२

⠏⠸⠗⠪⠾⠔ ⠫⠊⠓⠧⠜⠗ ⠡⠜⠞⠊⠽⠕ ⠏⠜⠹⠗ ⠅⠑

⠞⠇⠗ ⠛⠕⠓⠗⠊⠽⠜ ⠛⠥⠍⠈⠓⠗⠇ ⠅⠔ ⠈⠠⠆⠊⠍⠥⠝⠈⠝⠜ ⠅⠔

⠮⠜⠞⠥⠅ ⠃⠜⠬⠝ ⠾⠥⠾⠇⠕⠏⠗ ⠃⠕⠍⠊⠽⠜⠊⠞ ⠁⠡⠊

⠍⠌⠹⠊⠇ ⠃⠜⠬⠝ ⠎⠜⠃⠥⠞ ⠅⠔ ⠬⠅⠉⠥⠝⠈⠝⠜ ⠅⠔

⠫⠰⠾⠔ ⠍⠜⠗⠑ ⠚⠑ ⠃⠌⠬⠇ ⠎⠏⠈⠏⠞ ⠆⠜ ⠅⠂

⠞⠅⠗⠜ ⠇⠑ ⠡⠌ ⠛⠜⠄⠮⠔ ⠅⠔ ⠜ ⠈⠝⠈⠝⠜ ⠅⠔

⠙⠥⠝⠳ ⠛⠚⠇ ⠃⠊⠝⠜ ⠃⠓⠗⠅ ⠁⠡⠊ ⠎⠍⠈⠏⠜⠙⠅

३

⠏⠈⠗⠑⠍⠉⠝⠈⠙⠈⠗ ⠏⠰⠅⠚

⠛⠚⠇

१

२

४

१

२

3

4

५

१

२

२

१

२

३

3

⠅⠑⠞⠍⠑ ⠛⠊⠗⠜⠑⠇ ⠃⠊⠜

⠎⠥⠅⠊ ⠅⠂ ⠃⠂ ⠗⠓⠇ ⠁⠣⠊ ⠝⠜⠉⠹

⠲⠕⠫⠇ ⠅⠑⠞⠍⠑ ⠛⠗⠉⠜ ⠫⠻⠇ ⠡⠿⠊ ⠗⠓⠇ ⠁⠣⠊

⠅⠊⠎⠜⠝ ⠎⠃⠅⠑⠄ ⠜⠃⠗

⠅⠑⠞⠊⠎⠄ ⠜⠎ ⠿⠻⠿⠊ ⠗⠓⠇ ⠁⠣⠊

⠁ ⠅⠝ ⠫⠗⠊ ⠝⠜ ⠃⠑⠇ ⠏⠜⠝⠊

⠎⠃ ⠛⠊⠗⠓⠫ ⠏⠑⠣ ⠙⠊⠎ ⠙⠑⠅⠊ ⠗⠓⠇ ⠁⠣⠊

⠊⠎⠙⠁⠗ ⠃⠛⠧⠜⠝ ⠅⠊⠑⠅ ⠃⠂ ⠛⠑⠇ ⠝⠗⠜⠲ ⠝⠜
⠲⠜⠝⠊⠹

⠎⠃ ⠅⠊⠎⠜⠝ ⠃⠑⠇ ⠁⠣⠊ ⠏⠗⠑⠎⠜⠝

⠎⠏⠜⠏⠗ ⠃⠗⠁⠅⠜ ⠝⠜ ⠃⠂ ⠗⠓⠇ ⠁⠣⠊

⠅⠑⠝⠜ ⠗⠕⠏⠜⠑⠫ ⠫⠜⠝⠹

⠏⠣⠊⠇⠜ ⠎⠜⠇ ⠃⠜⠊⠻⠊⠗⠑ ⠝⠜⠉ ⠃⠂ ⠛⠑⠇ ⠫⠜⠝

⠓⠍ ⠅⠊⠎⠜⠝ ⠅⠑⠫⠜⠏⠗ ⠊⠝⠗⠁⠃⠗ ⠑⠤

⠜⠄⠨⠊⠅ ⠝⠕⠗ ⠎⠥⠅⠊ ⠛⠑⠇

⠙⠗⠈⠙ ⠝⠔ ⠳⠕⠢⠑ ⠅⠒

⠅⠑ ⠁⠥⠴⠫ ⠅⠢ ⠈⠑⠢ ⠴⠹⠫

⠅⠢ ⠈⠑⠢ ⠔⠜⠄⠉

⠿⠅⠋⠑ ⠿⠢⠅ ⠰⠝⠗⠢ ⠗⠳⠠⠑

⠃⠤⠴⠠⠑ ⠈⠏⠝⠜⠅⠑⠄ ⠃⠻⠅⠜

⠅⠤⠛ ⠕ ⠈⠏⠝⠑ ⠃⠢⠾⠗⠔⠄ ⠅⠜⠗⠔ ⠈⠑⠢

⠙⠤⠋⠈⠏⠝ ⠃⠝⠇ ⠔⠻⠅⠜

⠃⠻ ⠃⠻ ⠅⠗⠠⠑ ⠝⠜⠉

⠙⠇⠢⠫⠅ ⠏⠈⠗⠛⠫⠢⠔⠄

⠰⠇⠝⠅ ⠇⠛⠠⠑ ⠳⠢⠝⠅⠜ ⠜⠉

⠅⠫⠑⠅ ⠇⠢⠅⠃

⠙⠇⠢⠫⠅ ⠃⠑⠹⠜

⠔⠇⠳⠑⠙ ⠛⠜⠋⠅ ⠔⠔⠙⠑⠹⠩

⠙⠢⠻⠜⠙⠔ ⠃⠬⠫

⠁⠏⠝⠓⠊ ⠣⠗⠍⠑

⠓⠑⠗⠜⠑⠇ ⠡⠔ ⠓⠍

⠘⠑⠾⠌⠑ ⠓⠊⠎⠈⠎⠜

⠃⠗⠕⠃⠗⠊ ⠅⠂ ⠍⠥⠙⠜ ⠃⠶⠾⠍⠑

⠏⠡⠥⠜⠑⠇ ⠡⠔ ⠓⠍

⠇⠻⠑ ⠏⠻⠺ ⠈⠅⠝⠕

⠙⠊⠽⠜⠙⠔ ⠃⠶⠾⠅ ⠇⠑⠇

⠝⠌ ⠺⠠ ⠅⠗⠺ ⠜⠕⠗ ⠴⠑⠇

⠅⠂ ⠗⠓⠇ ⠁⠡⠊ ⠕

⠙⠊⠛⠘⠈⠗⠍⠊⠺ ⠓⠍⠗⠜

⠙⠇⠊⠺ ⠈⠟⠕⠏ ⠅⠓⠊ ⠅⠂

⠅⠗⠝⠑ ⠈⠡⠊

⠑⠅⠜⠺ ⠓⠍⠗⠜

⠕⠓⠔ ⠑⠅⠜⠺⠎⠄

⠉⠇⠊ ⠅⠗ ⠜⠑⠇ ⠡⠔ ⠓⠍

⠎⠓⠇⠪⠆ ⠎⠘ ⠅⠊⠡⠥

⠿⠑⠓ ⠎⠰⠛⠑⠹ ⠇⠊⠅⠊ ⠅⠂

⠚⠜⠊⠞ ⠙⠑⠅⠇⠊⠆

⠏⠥⠗⠈⠺⠊⠉⠜⠁ ⠗⠜⠯⠊⠉⠑

⠉⠜⠄⠝ ⠅⠑⠗ ⠉⠥⠏ ⠉⠜⠏⠒⠒⠒⠒

⠗⠊⠝⠈⠯⠜

⠓⠄⠎⠔⠯ ⠅⠑⠇⠔⠯

⠓⠩⠗ ⠺⠊⠽⠿⠔ ⠑⠇⠑

⠧⠊⠆⠯ ⠐⠗⠐⠗⠯⠥ ⠺⠁⠜⠄

⠺⠜⠊⠯ ⠑⠇⠊⠔ ⠈⠇⠿

⠩⠥⠝⠜ ⠝⠵⠊ ⠑⠇⠑ ⠏⠁⠈⠁⠜

⠅⠑⠝⠅⠜⠧⠕ ⠽⠔

⠺⠑⠽⠜ ⠩⠜⠇⠜⠩⠑ ⠿⠜⠄⠝⠇

⠗⠆⠿ ⠃⠊⠗⠆⠿⠁ ⠩⠻⠇ ⠺⠁⠜⠄

⠓⠥⠽⠁⠗ ⠅⠥⠝⠔⠩⠑

⠧⠐⠗⠚⠛⠕⠏⠜⠇⠜

⠖⠜⠛⠥⠝⠍⠑

⠨⠑⠇⠌⠇⠑ ⠓⠕⠇⠔

⠓⠍⠗⠜ ⠎⠰⠛⠑

⠞⠕⠗⠜ ⠇⠑⠇

⠎⠰⠚⠪⠝⠔ ⠡⠔

⠍⠨⠝ ⠘⠻⠇ ⠹⠜⠻⠔

⠃⠜⠾ ⠚⠕⠓⠊ ⠗⠓⠇ ⠁⠡⠊

⠗⠜⠮⠜ ⠎⠨⠔ ⠅⠑⠗ ⠎⠰⠛

⠧⠎⠰⠞⠅ ⠐⠗⠐⠗⠞⠥ ⠍⠮⠥⠍⠜⠎⠅ ⠍⠪⠎⠍

⠖⠛⠥⠝⠔ ⠓⠧⠜⠍⠑

⠓⠍ ⠥⠗⠜⠑⠃ ⠗⠰⠛ ⠁⠃⠊⠗

⠞⠕⠓⠑ ⠏⠈⠗⠑⠍

⠎⠥⠮⠜ ⠨⠑⠗

⠗⠰⠛ ⠘⠗⠎⠌⠑

⠍⠕⠓⠑

⠗⠰⠛ ⠙⠊⠓⠕ ⠈⠏⠈⠏⠝ ⠎⠰⠛⠍⠑

⠓⠍⠗ ⠺⠊⠝⠛⠔⠅ ⠍⠝⠕⠗⠹

⠏⠤⠗⠜ ⠅⠓⠊⠓⠕

⠩⠈⠽⠜⠍⠜ ⠁⠓⠔⠃⠑⠗

⠓⠕⠇⠔⠍⠑

⠁⠊⠓⠕

⠧⠐⠗⠺⠛⠕⠏⠜⠇⠜

⠖⠜⠛⠥⠝⠍⠑⠲

⠩⠈⠽⠜⠍⠇ ⠍⠕⠓⠑

⠰⠕⠺⠞ ⠓⠍ ⠞⠕⠗⠜

⠞⠜⠓⠔ ⠇⠑⠇

⠓⠑⠗⠜ ⠛⠑⠇ ⠓⠍⠗

⠅⠐⠗⠯⠈⠼ ⠅⠝⠈⠓⠌⠽⠜

⠃⠜⠎⠥⠗⠔ ⠃⠺⠊⠽⠜

⠗⠜⠎⠔ ⠓⠑ ⠅⠊⠡⠥

⠛⠜⠑⠇ ⠅⠗⠳

⠓⠊⠍⠜⠇⠽ ⠎⠝ ⠳⠄⠉

⠓⠐⠗⠙⠑ ⠈⠡⠊ ⠓⠍⠗

⠏⠈⠗⠑⠍⠅ ⠖⠳⠇ ⠆⠈⠇⠜⠑⠇ ⠅⠗⠳

⠁⠡⠊ ⠛⠜⠄⠮⠢⠅ ⠙⠑⠹ ⠔

⠛⠰⠛⠜ ⠽⠖⠥⠝⠜ ⠏⠜⠧⠝ ⠞⠙⠔

⠙⠊⠑ ⠎⠰⠛⠍⠅ ⠎⠰⠙⠑⠩ ⠚⠞⠑

⠞⠊⠇⠅ ⠾⠔⠛⠕⠗ ⠐⠍⠈⠇⠑⠙⠅⠗ ⠚⠞⠑

⠧⠊⠗ ⠘⠛⠎ ⠎⠊⠰⠓

⠒⠜⠈⠙⠈⠗⠩⠑⠅⠗ ⠎⠥⠘⠜⠯ ⠧⠌⠗ ⠏⠤⠞⠈⠗ ⠚⠞⠑

⠘⠑⠾⠑ ⠎⠰⠣⠗⠈⠯⠅ ⠅⠹⠜ ⠚⠞⠑

⠍⠜⠞⠐⠗⠘⠳⠍⠊ ⠁⠏⠈⠏⠜

⠘⠜⠗⠞ ⠍⠜⠞⠜ ⠅⠑⠗

⠛⠥⠼ ⠛⠜⠑⠇ ⠅⠗⠳

⠚⠗⠌ ⠚⠜⠥

⠧⠞⠝⠅ ⠙⠥⠩⠈⠍⠜

⠜⠛⠊ ⠎⠥⠝⠛⠜⠑⠇ ⠅⠗⠳⠲

⠯⠥⠧⠜

⠗⠓⠌⠑ ⠽⠥⠧⠜⠅⠑⠄

⠥⠍⠰⠛ ⠍⠕⠝⠍⠑

⠚⠪⠰

⠏⠓⠜⠻⠎⠄ ⠇⠻⠊ ⠇⠑⠃ ⠓⠍

⠎⠰⠣⠗⠈⠯⠅ ⠺⠔⠧⠝

⠁⠓⠊⠝⠜ ⠉⠇⠞⠌

⠚⠔⠧⠝⠅ ⠁⠰⠞⠊⠍

⠎⠍⠌⠍⠑

⠅⠊⠡⠥ ⠅⠑ ⠇⠑⠃ ⠓⠍

⠚⠕⠩ ⠚⠞⠑ ⠅⠍ ⠝⠌ ⠓⠥⠁⠑

⠏⠗⠊⠎⠈⠹⠊⠞⠊ ⠎⠜⠞ ⠎⠍⠥⠙⠈⠗

⠏⠜⠗ ⠅⠂ ⠇⠑⠃ ⠓⠍

⠓⠍⠗⠜ ⠝⠌ ⠗⠕⠅⠳ ⠅⠊⠽⠕

मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA

⠏⠹⠊⠅

⠓⠍ ⠏⠹⠊⠅ ⠡⠔

⠚⠔⠧⠝ ⠅⠑⠗

⠚⠔⠃⠊ ⠇⠊⠁ ⠙⠊⠁

⠝⠊⠓⠎⠈⠧⠜⠗⠈⠹ ⠗⠳⠏⠎⠠

⠍⠝⠥⠨ ⠃⠝⠊ ⠅⠂

⠙⠕⠨ ⠓⠍⠗⠜ ⠳⠏⠗

⠝⠔ ⠇⠜⠛⠑ ⠅⠕⠝⠕

⠝⠔ ⠛⠇⠞⠔ ⠓⠥⠁⠑ ⠖⠑⠗

⠓⠍ ⠏⠹⠊⠅ ⠡⠔

⠚⠔⠧⠝⠅

⠍⠝⠥⠨⠅ ⠞⠜ ⠃⠑⠾⠇ ⠓⠍⠗⠜

⠍⠜⠝⠧ ⠮⠗⠈⠍ ⠝⠊⠘⠜⠑⠃

⠍⠜⠝⠧ ⠎⠑⠧⠜ ⠅⠗⠃

⠚⠔⠧⠝ ⠏⠈⠗⠽⠞⠐⠝

⠉⠰⠉⠇ ⠫⠛⠗

⠍⠕⠓⠝⠔ ⠍⠜⠽⠜⠅ ⠃⠎⠍⠑

⠟⠔ ⠕⠴⠗⠜⠑⠃ ⠖⠑⠗

⠓⠍ ⠏⠹⠊⠅ ⠡⠔

⠚⠔⠧⠝⠅

⠛⠕⠗⠊ ⠙⠑⠇⠪⠰ ⠓⠍

⠍⠝ ⠚⠔⠶⠅ ⠴⠆⠫⠜

⠁⠏⠝⠜ ⠍⠕⠝⠍⠑

⠁⠧⠊⠗⠇ ⠎⠍⠎⠁⠽⠜

⠅⠺⠊⠝ ⠏⠗⠔⠟⠜

⠅⠊⠑⠅ ⠝⠔ ⠓⠥⠁⠑ ⠚⠔⠧⠝⠍⠑

⠏⠜⠡⠳ ⠥⠇⠾⠊ ⠅⠂

⠝⠔ ⠙⠑⠰⠃ ⠖⠑⠗

⠓⠍ ⠏⠹⠊⠅ ⠡⠔

⠚⠔⠧⠝ ⠅⠑⠗⠲

⠇⠜⠛⠇ ⠅⠔ ⠒⠍

⠚⠊ ⠃⠜⠿⠏⠗

⠉⠇⠇ ⠍⠓⠜⠞⠁⠍⠜ ⠛⠜⠄⠮⠔

⠍⠓⠜⠞⠁⠍⠜ ⠃⠥⠙⠈⠮ ⠧⠐⠓

⠃⠜⠿⠏⠗ ⠉⠇⠇ ⠅⠔ ⠒⠍

⠗⠜⠍ ⠅⠑⠗ ⠦⠳⠝⠍⠑

⠗⠍⠇ ⠅⠔ ⠒⠍⠲

⠎ ⠆⠞

⠝⠙⠊⠍⠑

⠘⠎⠊⠜⠑⠇ ⠍⠥⠗⠈⠙⠜

⠩⠜⠰⠞⠉⠊⠞⠈⠞ ⠃⠂ ⠅⠂

⠏⠜⠝⠊⠏⠗ ⠏⠻⠇ ⠈⠡⠊

⠑⠅⠗ ⠝⠌ ⠝⠜⠕⠆ ⠈⠡⠊

⠝⠌ ⠅⠕⠝⠕ ⠏⠞⠜

मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA

⠔ ⠃⠑⠗⠊⠿⠜ ⠃⠝⠈⠓⠝⠅

⠕⠅⠗⠜ ⠅⠕⠇⠌⠇⠑ ⠉⠜⠓⠌ ⠡⠔ ⠓⠍

⠑⠛⠕ ⠃⠳⠇ ⠃⠂ ⠛⠑⠇ ⠓⠍⠗⠜ ⠃⠳⠇⠎⠄

⠕ ⠃⠳⠇⠅⠑⠄ ⠃⠳⠇⠌⠍⠑

⠅⠥⠙ ⠈⠏⠝⠜⠅⠑⠄ ⠃⠳⠇⠊ ⠛⠑⠇ ⠡⠔ ⠓⠍

⠜⠃ ⠓⠍⠗ ⠈⠏⠝⠕ ⠡⠜⠄⠓

⠙⠕⠎⠗⠅⠑⠄ ⠇⠛⠌⠑ ⠜ ⠅⠥⠙⠅⠑⠄

⠅⠕⠚⠌⠇⠑ ⠝⠊⠅⠇⠇ ⠡⠔ ⠓⠍⠲

⠎⠰⠣⠗⠈⠯ ⠚⠜⠗⠔ ⠗⠅⠃

⠎⠍⠎⠈⠽⠜ ⠪⠗


⠃ ⠂⠻⠊ ⠛⠑⠇

⠎⠢⠗ ⠈⠮⠥⠗⠜ ⠗⠓⠊ ⠛⠑⠇

⠚⠔⠞ ⠅⠑⠗ ⠓⠜⠗⠊

⠛⠑⠇⠪⠆ ⠓⠍

⠓⠗⠑⠅ ⠅⠕⠩⠊⠩ ⠝⠜⠅⠜⠍ ⠃⠂ ⠛⠑⠇

⠇⠕⠅ ⠙⠑⠅⠊ ⠅⠂

⠚⠗⠌ ⠅⠑⠅⠗⠕ ⠖⠝

⠅⠗⠌ ⠁⠡⠊

⠡⠥⠜ ⠡⠳⠾⠅ ⠃⠑⠙ ⠃⠜⠧

⠍⠰⠙⠊⠗ ⠏⠳⠚⠜⠣⠗

⠚⠑⠃⠜⠖⠄ ⠅⠗⠌⠾ ⠁⠡⠊

⠧⠰⠉⠊⠾ ⠑⠰⠝⠕

⠑⠅⠌⠖⠍ ⠖⠙⠔⠍⠑

⠓⠗⠊⠚⠝⠅ ⠖⠰⠛

⠅⠊⠑⠅ ⠅⠂ ⠗⠓⠇ ⠡⠔

⠁⠓⠜⠄ ⠖⠘ ⠁⠝⠥⠉⠊⠾

⠓⠊⠝⠈⠙⠳ ⠍⠥⠖⠈⠇⠊⠍ ⠖⠊⠨ ⠔⠖⠜⠊⠲

⠓⠍ ⠡⠔ ⠍⠌⠹⠊⠇⠔

⠓⠍ ⠡⠔ ⠍⠌⠹⠊⠇

१

⠍⠔⠞ ⠽⠪ ⠙⠑⠅⠊ ⠙⠑⠅⠊ ⠉⠾⠊⠜⠊ ⠡⠔

⠁⠓⠔⠰⠾⠜ ⠅⠓⠌ ⠡⠔ ⠍⠔⠞ ⠽⠪

⠛⠐⠗⠓⠏⠞⠊ ⠎⠘ ⠃⠝⠑ ⠉⠜⠓⠌ ⠡⠌

⠝⠌ ⠏⠜⠃⠊ ⠣⠥⠻ ⠍⠪⠻ ⠅⠗⠌ ⠡⠌⠲

⠣⠥⠻ ⠍⠪⠻⠎⠄ ⠣⠥⠗⠊⠽⠜ ⠣⠥⠗⠌ ⠡⠌

⠁⠓⠔⠰⠾⠜ ⠅⠓⠌ ⠡⠔ ⠍⠔⠞ ⠽⠪

⠛⠐⠗⠓⠝⠔⠅ ⠛⠜⠗⠊ ⠎⠥⠝⠌ ⠡⠔

⠇⠜⠚⠑ ⠮⠜⠅ ⠍⠗⠌ ⠡⠔ ⠍⠔⠞ ⠽⠪

⠁⠓⠔⠰⠾⠜ ⠅⠓⠌ ⠡⠔⠲

⠛⠔⠞

⠓⠑ ⠃⠓⠊⠝⠜ ⠓⠑ ⠃⠓⠊⠝⠔

⠚⠔⠧⠝ ⠎⠰⠛ ⠚⠊⠝⠛⠔ ⠃⠙⠇⠌ ⠡⠌⠲

⠁⠏⠝⠑ ⠃⠙⠇⠊ ⠅⠊⠡⠥ ⠅⠊⠡⠥ ⠃⠙⠇⠌⠽⠔ ⠏⠻⠌ ⠡⠌

⠅⠊⠡⠥ ⠁⠏⠝⠑ ⠎⠥⠬⠗⠊ ⠅⠊⠡⠥ ⠎⠥⠎⠜⠗⠌⠽⠑ ⠏⠻⠌ ⠡⠌⠲

२

२२)

३

१

⠙⠍ ⠎⠬⠝⠑ ⠃⠽⠜⠨ ⠈⠗⠜⠆⠜

⠛⠥⠍⠅⠔ ⠜ ⠥⠍⠎ ⠍⠑⠄

⠎⠥⠅⠜ ⠗⠓⠸ ⠡⠸ ⠨⠆⠺

⠉⠊⠟⠈⠞ ⠃ ⠛⠑⠸ ⠡⠸

⠁⠨⠁⠅⠞ ⠞⠔⠞⠈⠞

⠎⠻⠎⠻⠜ ⠗⠓⠸ ⠡⠸ ⠏⠈⠗⠜⠼ ⠲

⠏⠎⠗⠸ ⠡⠸ ⠧⠜⠞⠜⠧⠗⠼ ⠍⠑

⠎⠘⠞⠗⠊ ⠎⠝⠈⠝⠜⠾⠜ ⠲

⠍⠥⠙⠜

⠏⠕⠅⠗⠊⠨ ⠍⠕⠓⠜⠗ ⠏⠗⠓⠥⠨

⠞⠜⠗⠨ ⠛⠜⠡⠨ ⠨⠞⠜⠗

⠜ ⠉⠪⠘⠾⠊⠽⠜ ⠏⠗⠓⠨

⠧⠊⠩⠜⠸ ⠧⠾⠧⠂⠗⠟ ⠍⠜⠞⠈⠗

⠅⠗⠜ ⠗⠓⠸ ⠡⠸

⠁⠏⠝ ⠩⠈⠗⠑⠯⠈⠺⠞⠜ ⠑⠧⠍⠈

२

⠛⠔⠶

⠁⠓⠜⠄ ⠃⠊⠝⠥ ⠓⠍ ⠅⠑⠝⠜ ⠗⠓⠘

⠓⠍⠗⠜ ⠃⠶⠜ ⠙⠊⠁

⠁⠓⠜⠄ ⠃⠊⠝⠥ ⠓⠍ ⠚⠔⠁⠃ ⠅⠊ ⠍⠗⠘

⠓⠍⠗⠜ ⠃⠶⠜ ⠙⠊⠁

⠁⠓⠜⠄ ⠃⠊⠝⠥⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠁⠓⠔⠰ ⠉⠌⠝ ⠡⠔ ⠓⠍⠗⠜

⠁⠓⠔⠰ ⠶⠄ ⠝⠊⠝⠈⠝⠊⠽⠜

⠎⠥⠨ ⠙⠥⠨ ⠓⠍⠗

⠁⠓⠔⠰ ⠶⠄ ⠎⠚⠝⠊⠽⠜⠄

⠁⠓⠔⠰ ⠚⠔⠧⠜ ⠓⠍⠗

⠁⠓⠔⠰ ⠶⠄ ⠏⠗⠝⠊⠽⠜

⠎⠘ ⠅⠊⠡⠥ ⠡⠔ ⠓⠍⠗

⠁⠓⠔⠰ ⠶⠄ ⠎⠚⠝⠊⠽⠜⠄

⠎⠚⠝⠔ ⠃⠊⠝⠥ ⠓⠍ ⠅⠑⠝⠜ ⠗⠓⠘

१

२

१

२

४११०५४

⠿⠕⠛⠙⠜⠝ ⠙⠑⠇⠝⠈⠓⠊ _ ⠉⠜⠓⠑ ⠕ ⠅⠕⠝⠓⠥
⠚⠜⠞⠊ ⠶⠗⠈⠍ ⠧⠜ ⠧⠗⠈⠛ ⠧⠊⠙⠑⠯⠅ ⠓⠕⠟⠊ ⠲
⠊⠨⠛⠓⠊ ⠕⠓⠕ ⠊⠏⠳⠋ ⠇⠕⠅⠝⠊ ⠙⠑ ⠍⠊⠙⠊⠇
⠝⠓⠊⠤⠕ ⠗⠓⠔⠋ ⠍⠊⠙⠊⠇⠜ ⠜ ⠍⠊⠙⠊⠇⠊⠅ ⠧⠊⠅⠜⠊
⠍⠑ ⠈⠏⠝ ⠊⠜⠗⠈⠙⠅ ⠿⠕⠛⠙⠜⠝ ⠙⠑⠇⠝⠈⠓⠊ ⠲

⠕⠝⠜ ⠝⠜⠄⠥ ⠇⠊⠅⠇ ⠚⠜⠑ ⠫⠄ ⠑⠓⠊ ⠊⠏⠳⠋
⠇⠕⠅⠝⠊⠅ ⠊⠅⠅⠈⠻⠜ ⠅⠓⠤⠋ ⠁⠤⠩⠝⠜ ⠚⠜⠻⠋ ⠏⠗
⠊⠏⠊⠈⠋ ⠍⠊⠙⠊⠇⠛⠯ ⠅⠑⠗ ⠊⠅⠅⠈⠻⠜⠅ ⠈⠝⠤⠏⠜⠋
⠍⠑ ⠔ ⠝⠜⠄⠥ ⠊⠁ ⠍⠜⠋⠈⠗ “⠍⠤⠫⠈⠫⠔ ⠃⠗⠊”
⠛⠝⠇ ⠚⠜⠑⠋ ⠲

⠝⠒⠊ ⠏⠞⠈⠗ ⠑⠅⠓⠥ ⠾⠜ ⠇⠔⠨⠇

⠛⠔⠞

⠏⠓⠥ ⠛⠑⠇⠜⠓ ⠏⠗⠙⠑⠩ ⠎⠨⠔

⠙⠊⠟ ⠍⠜⠎ ⠅⠞⠑⠅⠓⠥ ⠃⠔⠞⠇ ⠲

⠝⠒⠊ ⠏⠞⠈⠗ ⠑⠅⠓⠥ ⠾⠜ ⠇⠔⠨⠇ ⠲

१० - १५

१ २

१

⠃⠻ ⠃⠻ ⠛⠥⠗ ⠛⠆⠚⠝ ⠎⠓⠌⠑

⠍⠊⠹⠈⠗⠔ ⠝⠜⠕⠆ ⠮⠻⠃⠌⠑⠲

⠅⠗⠈⠍⠅ ⠖⠇

⠅⠗⠈⠍⠅ ⠖⠇ ⠈⠧⠩⠈⠽ ⠍⠊⠇⠌ ⠡⠌

⠚⠜⠝⠊ ⠃⠳⠴⠊ ⠚⠪⠆ ⠅⠗⠌ ⠡⠌ ⠓⠜⠝⠊

⠓⠕⠊ ⠡⠌ ⠮⠝ ⠚⠝ ⠈⠃⠊⠍⠜⠝⠅ ⠓⠜⠊⠝

⠎⠘ ⠺⠗⠖ ⠓⠕⠊ ⠡⠌ ⠝⠅⠊⠓⠜⠝⠊

⠅⠜⠚ ⠝⠌ ⠓⠕⠊ ⠡⠌ ⠡⠕⠾ ⠏⠌⠣

⠅⠗⠈⠍⠎⠄ ⠇⠕⠅ ⠓⠕⠊ ⠡⠌ ⠡⠕⠾ ⠏⠌⠣

⠚⠑⠓⠑⠝ ⠎⠕⠉ ⠕⠓⠑⠝ ⠅⠜⠚ ⠓⠕⠊ ⠡⠌


⠘⠜⠧⠝⠜⠅ ⠎⠆⠛ ⠘⠜⠧ ⠝⠙⠔ ⠎⠝ ⠃⠓⠌ ⠡⠌

⠎⠘⠅⠑⠄ ⠎⠥⠅ ⠍⠊⠇⠑ ⠙⠥⠅⠅ ⠈⠆⠞ ⠓⠕⠊ ⠡⠌

⠅⠗⠈⠺⠜ ⠏⠥⠗⠥⠿⠅ ⠏⠳⠚⠜ ⠎⠘ ⠅⠗⠌ ⠡⠌

⠅⠗⠈⠍⠎⠄ ⠘⠜⠛⠈⠽ ⠃⠙⠇⠌ ⠡⠌





⠅⠊⠡⠥ ⠅⠗⠌⠼ ⠉⠇⠳

⠚⠔⠃⠔⠼ ⠉⠇⠳⠲

⠃⠊⠎⠗⠇ ⠛⠔⠼

⠅⠕⠊⠇⠔ ⠃⠌⠎⠇

⠜⠍⠅ ⠫⠜⠗⠊⠏⠗

⠴⠳⠇⠊ ⠴⠳⠇⠊ ⠛⠜⠃⠑

⠃⠊⠎⠗⠇ ⠛⠔⠼

⠎⠳⠼⠇⠍⠑ ⠚⠛⠃⠑ ⠝⠔⠝

⠍⠎⠳⠗ ⠛⠔⠼⠅ ⠎⠈⠧⠗ ⠎⠥⠝⠊

⠍⠕⠝ ⠘⠑⠇ ⠧⠊⠃⠕⠗

⠃⠑⠗ ⠃⠑⠗ ⠅⠕⠊⠇⠔

⠎⠥⠝⠃⠑ ⠙⠥⠨ ⠃⠗⠇ ⠎⠝⠑⠎

⠃⠊⠎⠗⠇ ⠏⠈⠗⠑⠍⠅ ⠎⠊⠝⠑⠓

⠙⠊⠇⠅ ⠙⠗⠙ ⠗⠓⠊ ⠗⠓⠊ ⠚⠛⠑

⠏⠊⠜⠎⠄ ⠅⠓⠊⠽⠜ ⠓⠑⠼ ⠃⠑⠄⠾

⠥⠏⠅⠜⠗ ⠅⠗⠌⠞ ⠚⠻⠌⠞ ⠗⠓⠳

⠚⠜⠮⠗⠊ ⠇⠓⠳ ⠁⠡⠊ ⠁⠓⠜⠄ ⠎⠆⠛⠑⠲

⠛⠜⠍⠅ ⠝⠜⠗⠔

⠖⠝⠐⠙_⠖⠝⠐⠙ ⠓⠧⠜ ⠎⠊⠓⠅⠑

⠖⠳⠇⠅ ⠏⠰⠅⠥⠗⠔ ⠴⠗⠊ ⠴⠗⠊ ⠛⠊⠗⠑

⠡⠝⠑ ⠡⠝ ⠍⠪⠎⠍ ⠃⠙⠇⠑

⠅⠆⠝⠕ ⠗⠪⠙ ⠅⠆⠝⠕ ⠡⠜⠓ ⠏⠻⠑

⠃⠊⠝⠥ ⠧⠎⠝⠈⠞ ⠃⠓⠜⠗ ⠃⠝⠑

⠅⠑⠞⠅ ⠜⠻⠊⠏⠗ ⠛⠜⠍⠅ ⠝⠜⠗⠔

⠅⠝⠈⠽⠜⠄ ⠃⠓⠥⠗⠊⠜ ⠝⠧⠞⠥⠗⠊⠜

⠖⠜⠄⠐⠻ ⠃⠜⠝⠈⠓⠊ ⠅⠑⠞⠍⠑ ⠅⠜⠚ ⠅⠗⠑

⠘⠳⠸⠸ ⠘⠊⠎⠗⠸ ⠎⠕⠓⠗ ⠎⠍⠙⠪⠝

⠃⠊⠗⠓⠜ ⠧⠊⠙⠑⠩⠊⠽⠜ ⠛⠔⠞ ⠛⠜⠘⠑

⠃⠜⠾ ⠘⠾⠕⠓⠔ ⠎⠥⠝⠊ ⠎⠥⠝⠊

⠃⠜⠾ ⠃⠳⠇⠊ ⠇⠚⠜⠊ ⠡⠇⠌

⠅⠓⠔⠞ ⠃⠜⠾ ⠉⠇⠔⠞ ⠡⠇⠌

⠛⠜⠍⠅ ⠝⠜⠗⠔

⠙⠑⠩⠅ ⠡⠔ ⠓⠊⠞⠅⠜⠗⠔

⠙⠑⠩⠅ ⠊⠝⠗⠈⠍⠜⠼⠍⠑

⠅⠗⠔⠞ ⠁⠡⠊ ⠎⠜⠤⠑⠙⠜⠗⠌⠲

⠏⠊⠿⠜⠎⠇ ⠬⠗⠞⠔

⠏⠊⠿⠜⠎⠇ ⠬⠗⠞⠔ ⠞⠻⠎⠊ ⠗⠓⠇ ⠁⠡⠊

⠅⠜⠇ ⠅⠕⠺⠗⠔⠎⠑ ⠡⠊⠏⠇ ⠃⠙⠗⠊⠿⠜

⠬⠗⠞⠔ ⠎⠱⠰⠊ ⠙⠻⠜⠗⠊ ⠏⠻⠇ ⠁⠡⠊


⠎⠱⠰⠊ ⠙⠧⠃⠔⠅ ⠅⠍⠚⠔⠗ ⠏⠻⠇ ⠁⠡⠊

⠛⠗⠍⠔⠎⠄ ⠓⠜⠓⠜⠅⠜⠗ ⠍⠉⠌⠑

⠉⠊⠻⠔ ⠉⠥⠝⠍⠥⠇ ⠍⠤⠄⠓ ⠆⠕⠇⠊ ⠃⠔⠎⠇ ⠁⠡⠊

⠣⠜⠎ ⠏⠜⠞ ⠎⠱⠰⠊ ⠚⠻⠔⠞ ⠁⠡⠊





ऑ

ऑ

⠌ ⠙⠔⠏⠎⠄

⠅⠑⠝⠜ ⠓⠑⠞ ⠍⠝⠧⠅⠈⠨⠅ ⠏⠈⠗⠅⠜⠩

⠍⠝⠧⠅⠅⠑⠄ ⠁⠡⠊

⠱⠼⠝ ⠗⠳⠏⠔ ⠏⠈⠗⠅⠼⠉⠅ ⠈⠃⠼⠧

⠚⠅⠝ ⠍⠝⠥⠅ ⠃⠝⠞ ⠱⠼⠝⠔

⠞⠄ ⠁⠃⠊⠍⠼⠝⠔ ⠁⠝⠈⠓⠼⠗ ⠙⠳⠗ ⠃⠼⠛⠞

⠙⠔⠏⠅ ⠁⠝⠈⠓⠼⠗ ⠃⠛⠪⠇⠼⠎⠄

⠝⠔ ⠅⠼⠚ ⠉⠇⠞ ⠙⠥⠝⠊⠿⠼⠅⠑⠄

⠱⠼⠝⠗⠳⠏⠔ ⠏⠈⠗⠅⠼⠩ ⠁⠡⠊ ⠚⠗⠳⠗⠔

⠚⠊⠎⠄ ⠙⠥⠝⠊⠽⠼ ⠚⠛ ⠍⠛ ⠓⠑⠞

⠱⠼⠝⠅ ⠙⠔⠏ ⠚⠗⠪⠇⠼⠎⠄

⠅⠓⠊⠽⠕ ⠁⠝⠈⠓⠗⠊⠽⠼ ⠝⠔ ⠓⠑⠞⠲

⠙⠥⠅⠼⠑⠇ ⠛⠆⠛⠼

⠎⠘ ⠎⠼⠮⠥ ⠛⠆⠛⠼ ⠝⠓⠼⠊ ⠡⠌

⠅⠞⠑⠅ ⠏⠼⠏ ⠚⠊⠝⠛⠔⠍⠑ ⠅⠑⠝⠑ ⠡⠌

⠁⠎⠜⠐⠻⠅ ⠍⠜⠎

⠥⠍⠈⠍⠜⠎ ⠃⠻⠇ ⠙⠊⠝

⠁⠍⠗⠎ ⠅⠜⠑ ⠏⠔⠃

⠰⠕⠏⠻⠔⠍⠑ ⠎⠳⠞⠇

⠏⠎⠊⠝⠜⠎⠄ ⠙⠑⠓ ⠃⠊⠚⠇

⠝⠊⠝⠈⠝ ⠾⠳⠾⠊ ⠛⠑⠇

⠘⠰⠫⠜⠗ ⠅⠕⠼⠎⠄

⠿⠝⠿⠝⠜⠊⠞ ⠍⠑⠣

⠃⠊⠚⠥⠗⠔ ⠉⠍⠅⠌⠞

⠣⠝⠣⠕⠗ ⠃⠗⠎⠌⠞

⠚⠻⠇ ⠮⠗⠞⠔⠅⠑⠄

⠏⠈⠽⠜⠎ ⠍⠥⠴⠃⠑ ⠇⠛⠇

⠁⠙⠈⠗⠜ ⠝⠯⠞⠈⠗⠍⠑

⠰⠝⠈⠞⠜_⠫⠃⠗⠜ ⠏⠕⠰⠗⠊

⠴⠍ ⠴⠍ ⠘⠗⠰⠜⠎⠄

⠘⠻⠑ ⠇⠛⠇

⠘⠻⠇ ⠏⠜⠟⠊⠍⠑

⠃⠑⠰⠛⠅ ⠃⠗⠊⠽⠜⠺⠢

⠎⠚⠑ ⠇⠛⠇

⠥⠡⠇⠊ ⠅⠵⠙⠊

⠿⠪⠎⠜ ⠉⠊⠺⠅⠃⠗⠜

⠏⠊⠁⠗⠅⠜ ⠍⠇⠊⠡⠜⠓⠜

⠎⠥⠗⠥⠅⠥⠜⠊⠽⠜⠄ ⠅⠜⠾⠊ ⠅⠜⠾⠊

⠃⠗⠊⠽⠜⠺⠊⠅ ⠃⠢⠻

⠚⠥⠾⠑ ⠇⠛⠇

⠣⠕⠣ ⠖⠇⠅⠜⠃⠢⠺

⠑⠅⠁⠅⠑ ⠎⠈⠧⠗⠍⠑

⠾⠗⠈⠾⠗⠜⠊⠺ ⠿⠕⠿⠊⠽⠜⠊⠺

⠓⠚⠜⠗⠅ ⠓⠚⠜⠗

⠁⠝⠣⠪⠇ ⠅⠗⠢⠺

⠅⠊⠡⠥ ⠛⠢⠺ ⠛⠜⠃⠑

⠅⠊⠡⠥ ⠏⠜⠝⠊⠍⠑ ⠫⠳⠍⠊

⠃⠇⠜⠝⠅ ⠃⠜⠐⠻⠊

⠿⠇ ⠏⠗ ⠿⠇ ⠃⠚⠗⠌⠞

⠎⠝⠎⠝⠜⠊⠞ ⠥⠮⠊⠽⠜⠊⠞

⠏⠎⠗⠊ ⠛⠑⠇ ⠃⠜⠐⠻⠊⠅ ⠏⠜⠝⠊

⠓⠊⠍⠈⠍⠞ ⠓⠜⠗⠊ ⠇⠕⠅

⠅⠗⠑ ⠇⠛⠇ ⠛⠥⠓⠜⠗⠊

⠃⠇⠜⠝⠅⠑⠄ ⠝⠌ ⠜⠑⠇

⠅⠕⠝⠕ ⠙⠽⠜ ⠍⠜⠽⠜

⠛⠪⠗⠧⠎⠄ ⠅⠓⠇⠅

⠉⠜⠗⠊ ⠍⠜⠎ ⠞⠅

⠗⠓⠞ ⠓⠍⠗ ⠗⠜⠚

⠝⠌ ⠉⠇⠑ ⠙⠑⠃ ⠓⠍

⠁⠓⠜⠄ ⠎⠃⠓⠅ ⠗⠜⠚ ⠅⠜⠚

⠚⠨⠝ ⠓⠍⠗

⠃⠜⠐⠻⠊⠅ ⠃⠳⠞ ⠎⠃⠜⠗ ⠗⠓⠞

⠓⠑⠗⠜⠑⠇ ⠘⠛⠧⠜⠝

⠍⠕⠝ ⠣⠘⠗⠜⠑⠇ ⠡⠇

⠍⠕⠝ ⠣⠘⠗⠜⠑⠇ ⠡⠇

⠅⠉⠈⠡ ⠍⠡ ⠅⠗⠌⠺

⠍⠕⠝⠍⠑ ⠖⠥⠗⠜⠑⠇

⠎⠥⠨ ⠩⠜⠆⠺⠊ ⠇⠑⠇

⠘⠛⠧⠜⠝⠎⠄ ⠍⠊⠇⠃

⠁⠏⠝ ⠙⠤⠆⠗⠜ ⠎⠥⠝⠜⠑⠃

⠚⠑ ⠎⠥⠨ ⠩⠜⠆⠺⠊ ⠇⠑⠇

⠅⠕⠝⠕ ⠥⠏⠜⠿ ⠘⠺⠜⠑⠺

⠚⠊⠎⠄ ⠅⠇⠈⠿⠜⠼ ⠓⠑⠺

⠍⠰⠙⠊⠗⠑ ⠍⠰⠙⠊⠗ ⠣⠳⠍⠊ ⠣⠳⠍⠊

⠏⠳⠚⠜ ⠧⠊⠝⠺⠄ ⠘⠓⠥⠺ ⠅⠑⠇⠪⠰

⠍⠎⠈⠚⠊⠺ ⠛⠥⠗⠥⠙⠈⠧⠜⠗⠜⠍⠑

⠍⠜⠹⠜ ⠾⠑⠅⠊⠇⠪⠰

⠏⠊⠿⠜⠇⠑⠄ ⠇⠇⠉⠑⠃⠌ ⠝⠜

⠓⠕ ⠗⠜⠍ ⠉⠌⠾⠅ ⠍⠓⠊⠝⠍⠜ ⠝⠜⠲

⠉⠌⠾⠔ ⠛⠔⠾

⠃⠕⠗ ⠃⠑⠇⠌ ⠓⠑ ⠎⠅⠔

⠃⠊⠝⠎⠗⠃⠜ ⠃⠑⠇⠑ ⠓⠑

⠅⠝⠔ ⠉⠇⠳ ⠝⠑ ⠃⠛⠊⠽⠜

⠅⠕⠿⠇⠊⠽⠜ ⠃⠚⠌ ⠓⠑

⠓⠑ ⠎⠅⠔ ⠉⠌⠾⠅ ⠍⠓⠊⠝⠜ ⠓⠑

⠜⠍⠅ ⠛⠜⠡⠔⠍⠑

⠴⠥⠇⠃⠜ ⠴⠥⠇⠃⠌

⠏⠊⠽⠜ ⠅⠑⠗ ⠎⠆⠛⠑ ⠓⠑

⠓⠑ ⠎⠅⠔ ⠉⠌⠾⠅ ⠍⠓⠊⠝⠜ ⠓⠑

⠅⠜⠗⠔ ⠅⠜⠗⠔ ⠅⠑⠎⠊⠽⠜

⠫⠜⠗⠏⠗ ⠇⠾⠅⠔

⠏⠳⠗⠈⠧⠜ ⠏⠡⠊⠽⠜⠍⠑ ⠖⠥⠇⠅⠌

२

१

२ :

३

२

२


२

२

२

४





१७

५

१

१

२

१

२

३

१

२

१११०

१

१

२

२

१

२

3

3

१

२

⠃⠜⠄⠎ ⠃⠚⠿ ⠡⠌ ⠅⠗ ⠅⠗ ⠅⠗⠈⠗ ⠲

⠍⠊⠇ ⠉⠇⠽ ⠡⠌ ⠮⠗ ⠮⠗ ⠮⠗⠈⠗

⠎⠜⠄⠏ ⠎⠎⠗⠇⠌ ⠎⠗ ⠎⠗ ⠎⠗⠈⠗ ⠲

⠉⠥⠝⠍⠜ ⠡⠜⠞⠔ ⠮⠅ ⠮⠅ ⠮⠅⠈⠅

⠫⠗⠎⠄ ⠅⠜⠏⠽ ⠹⠗ ⠹⠗ ⠹⠗⠈⠗ ⠲

⠏⠏⠈⠏⠜ ⠑⠇⠆⠊⠝ ⠃⠜⠛⠊ ⠛⠑⠇ ⠫⠗

⠃⠜⠞ ⠏⠙⠜⠃⠽ ⠉⠗ ⠉⠗ ⠉⠗⠈⠗ ⠲

४

⠚⠛⠙⠜⠝⠝⠈⠙ ⠴⠜ ⠍⠝⠥

⠝⠌⠝⠜ ⠃⠥⠾⠅⠜⠅ ⠛⠚⠇

⠉⠍ ⠉⠍ ⠉⠍ ⠉⠍ ⠞⠜⠗⠜ ⠉⠍⠅⠑
⠃⠪⠜ ⠅⠑ ⠓⠜⠹⠅ ⠞⠗⠤⠜ ⠛⠍⠅⠑

१३)

५

१३

६

⠍⠔⠺⠛⠗ _ ⠍⠔⠺⠛⠗ ⠝⠔⠨ ⠇⠛⠑

⠏⠗ ⠚⠄ ⠎⠙⠊⠰⠝ ⠍⠊⠾⠈⠺⠓⠊ ⠃⠑⠾⠑ ⠲

⠃⠐⠻⠑ ⠍⠕⠾⠜⠏⠜ ⠛⠑⠰⠻⠜ ⠎⠝ ⠜

⠎⠥⠎⠈⠞ ⠍⠕⠜ ⠓⠕ ⠚⠔ ⠥⠉⠾⠑ ⠲

⠝⠕⠝⠛⠗ ⠨⠾⠛⠗ ⠎⠔⠞ ⠚⠗⠳⠗⠔

⠘⠕⠚⠝ ⠍⠑ ⠗⠥⠉⠊ ⠗⠓⠃⠜ ⠇⠑ ⠲

⠞⠑⠄ ⠏⠐⠻⠜⠔ ⠎⠑⠓⠕ ⠜⠧⠩⠈⠽⠅

⠝⠑⠝⠏⠝ ⠒⠕⠊ ⠡⠌ ⠏⠐⠻⠘⠜ ⠇⠑ ⠲⠲

⠨⠑⠇ _ ⠅⠳⠙ ⠝⠑⠝⠏⠝ ⠅⠑⠗ ⠛⠓⠝⠜

⠧⠐⠽⠅⠐⠞⠊⠞⠐⠧⠅ ⠎⠰⠏⠕⠯⠅ ⠡⠔ ⠲

⠨⠑⠇ _ ⠅⠳⠙ ⠎⠊⠰⠃⠔⠢ ⠃⠓⠥⠞ ⠅⠊⠡⠥

⠞⠑⠄ ⠕ ⠈⠞⠊ ⠜⠧⠩⠈⠽⠅ ⠡⠔ ⠲

[illegible]

१ [illegible]

[illegible]

२ [illegible]

[illegible]

३ [illegible]

[illegible]

४

५

६

७

IR२II

ॐ ॐ

II


१

२

१

१.१

१

मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA

७

८

१०

१.२

१.

२:

३:

४:

५:

६:

७:

८

९

१०

११

१२

४३:

४४:

४५:

४६:

४७:

४८:

१९:

२०:

२१:

ऐ ओ

११/८/७६

११/८/७६

११/०८/७६

२:

२.१:

ऑ

८:

९

:

१०:

११: १

२:

१३:

१४:

१५:

१६:

१७:

१८:

१९:

२०

:

२१:

२२:

२३:

२४:

२५:

२६:

[illegible]

२७ [illegible]

[illegible]

२८ [illegible]

२९ [illegible]

३० [illegible]

३१ [illegible]

३२ [illegible]

३३ [illegible]

३४ [illegible]

३५ [illegible]

३६ [illegible]

३७ [illegible]

३८ [illegible]

३९ [illegible]

४० [illegible]

४१ [illegible]

४२ [illegible]

४३: [illegible]

४४: [illegible]

४५: [illegible]

४६: [illegible]

४७: [illegible]

४८: [illegible]

४९: [illegible]

५०: [illegible]

५१: [illegible]

५२: [illegible]

५३: [illegible]

५४: [illegible]

५५: [illegible]


५६: [illegible]

५७: [illegible]

५८: [illegible]

५९: [illegible]

६०: [illegible]

   मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA

६१:

६२:

६३:

६४:

६५:

६६:

६७:

६८:

६९:

७०:

७१:

७२:

७३:

७४:

७५:

७६:

७७:

७८ः

७९ः

८०ः

८१

ः

८२ः

८३ः

८४ः

८५ः ८६ः

८७ः

८८ः

८९ः

९०ः

९१ः

९२ः

९३ः

९४ः _

९५ः

९६ः

९७ : [illegible]

९८ : [illegible]

९९ : [illegible]

१०० : [illegible]

१०१ : [illegible]

१०२ : [illegible]

१०३ : [illegible]

१०४ : [illegible]

१०५ : [illegible]

१०६ : [illegible] _ [illegible]

१०७ : [illegible]

१०८ : [illegible]

१०९ : [illegible]

११० : [illegible]

१११ : [illegible]

११२ : [illegible]

११३ : [illegible]

११४ : [illegible]

११५ :

११६ :

११७ :

११८ :

११९ :

१२० :

१२१ :

१२२ :

१२३ :

१२४ :

१२५ :

१२६ :

१२७ :

१२८ :

१२९ :

१३० :

१३१ :

१३२

१३३

१३४

१३५

१३६

१३७

१३८

१३९

१४०

१४१

१४२

१४३

१४४

१४५

१४६

१४७

१४८

१४९

१५०

१५१

१५२

१५३

१५४

१५५

१५६

१५७

१५८

१५९

१६०

१६१

१६२

१६३

१६४

१६५

१६६ :

१६७ :

१६८ :

१६९ :

१७० :

१७१ :

१७२ :

१७३ :

१७४ :

१७५ :

१७६ :

१७७ :

१७८ :

१७९ :

१८० :

१८१ :

१८२ :

१८३ :

१८४ :

१८५ :

१८६ :

१८७ :

१८८ :

१८९ :

१९० :

१९१ :

१९२ :

१९३ :

१९४ :

१९५ :

१९६ :

१९७ :


१९८ :

१९९ :

२०० :

२०१ :





मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA

२०२

२०३

२०४

२०५

२०६

२०७

२०८

२०९

२१०

२११

२१२

२१३

२१४

२१५

२१६

२१७

२१८

२१९

२२०

२२१

२२२

२२३

२२४

२२५

२२६

२२७

२२८

२२९

२३०

२३१

२३२

२३३

२३४

२३५

२३६

२३७

२३८

२३९

२४०

२४१

२४२

२४३

२४४

२४५

२४६

२४७

२४८

२४९

२५०

२५१

२५२

२५३

२५४

२५५

२५६

२५७


२५८

२५९

२६०

२६१

२६२

२६३

२६४

२६५

२६६

२६७

२६८

२६९

२७०

२७१

२७२

२७३

२७४

२७५

२७६

२७७


२७८

२७९

२८०

२८१

२८२

२८३

२८४

२८५

२८६

२८७

२८८

२८९

२९०

२९१

२९२

२९३

२९४

२९५

२९६

२९७

२९८

२९९

३००

३०१

३०२

३०२

३०३

३०४

३०५

३०६

३०७

३०८

३०९

३१०

३११

३१२

३९३


३९४

३९५

३९६

३९७

१४९१



२ [illegible]

३ [illegible] ऑ [illegible]

४ [illegible]

५ [illegible]

[illegible]

६ [illegible]

७ [illegible]

८ [illegible]

९ [illegible]

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६ ऑ

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

१ ७

६१२

१: २: ३: ४

१: २: ३: ४

३

४

५

६

११

१२

१३

१४

१५

ऑ

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

४६

४७

४८

४९

५०

५१

७२

७३

७४

७५

७६

७७

५८

५९

६०

६१

६२

६३

६४

६५

६६

६७

६८

६९

७० [illegible]

७१ [illegible]

७२ [illegible]

७३ [illegible]

७४

७५

७६

७७

७८

७९

२००४-१२